

एनईआर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For NER

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1794 | 1664 | 1666 | 128 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1754 | 1627 | 1640 | 114 | 13 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1752 | 1625 | 1616 | 136 | 9 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1715 | 1591 | 1585 | 130 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1680 | 1559 | 1554 | 126 | 5 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1654 | 1534 | 1531 | 122 | 3 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1627 | 1509 | 1503 | 124 | 6 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1607 | 1491 | 1485 | 122 | 6 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1589 | 1474 | 1469 | 121 | 5 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1577 | 1463 | 1458 | 119 | 4 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1567 | 1454 | 1447 | 121 | 7 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1558 | 1445 | 1446 | 112 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1548 | 1436 | 1440 | 108 | 4 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1540 | 1429 | 1431 | 109 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1539 | 1428 | 1427 | 113 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1541 | 1429 | 1432 | 108 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1543 | 1431 | 1429 | 114 | 2 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1547 | 1435 | 1448 | 100 | 12 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1555 | 1442 | 1466 | 88 | 24 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1571 | 1457 | 1498 | 73 | 41 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1595 | 1480 | 1555 | 41 | 75 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1633 | 1515 | 1613 | 21 | 97 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1683 | 1561 | 1682 | 1 | 121 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1748 | 1622 | 1790 | 42 | 168 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1831 | 1699 | 1889 | 58 | 190 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1935 | 1795 | 2053 | 118 | 258 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 2048 | 1900 | 2168 | 120 | 268 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 2157 | 2001 | 2236 | 78 | 235 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 2250 | 2303 | 2284 | 34 | 19 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 2322 | 2377 | 2334 | 11 | 43 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 2372 | 2428 | 2351 | 20 | 76 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 2395 | 2452 | 2350 | 45 | 102 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 2393 | 2315 | 2347 | 46 | 32 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 2377 | 2299 | 2336 | 41 | 37 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 2358 | 2280 | 2314 | 44 | 34 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 2338 | 2261 | 2308 | 29 | 48 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 2314 | 2238 | 2278 | 36 | 40 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 2286 | 2211 | 2288 | 2 | 77 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 2259 | 2185 | 2251 | 8 | 66 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 2233 | 2160 | 2226 | 7 | 66 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 2208 | 2135 | 2221 | 14 | 86 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 2188 | 2116 | 2169 | 20 | 52 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 2171 | 2100 | 2143 | 28 | 44 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 2156 | 2085 | 2096 | 60 | 11 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 2145 | 2074 | 2074 | 71 | 0 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 2137 | 2067 | 2081 | 56 | 14 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 2134 | 2064 | 2069 | 66 | 5 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 2125 | 2055 | 2049 | 77 | 7 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 2114 | 2044 | 2033 | 81 | 11 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 2098 | 2029 | 2037 | 61 | 8 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 2084 | 2015 | 2030 | 54 | 15 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 2079 | 2011 | 2031 | 49 | 20 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 2081 | 2013 | 2014 | 67 | 1 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 2081 | 2012 | 1993 | 88 | 19 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 2074 | 2006 | 1994 | 80 | 12 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 2063 | 1995 | 1962 | 100 | 32 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 2052 | 1984 | 1971 | 81 | 14 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 2044 | 1977 | 1996 | 48 | 19 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 2044 | 1976 | 2026 | 18 | 49 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 2050 | 1982 | 2038 | 12 | 56 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 2060 | 1992 | 2054 | 7 | 61 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 2077 | 2009 | 2068 | 9 | 59 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 2098 | 2029 | 2111 | 13 | 82 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 2124 | 2054 | 2139 | 15 | 85 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 2159 | 2154 | 2186 | 27 | 32 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 2208 | 2202 | 2197 | 10 | 5 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 2273 | 2268 | 2263 | 11 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 2352 | 2346 | 2342 | 10 | 4 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 2446 | 2440 | 2437 | 9 | 3 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 2553 | 2547 | 2573 | 21 | 27 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 2661 | 2654 | 2701 | 40 | 47 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 2733 | 2727 | 2789 | 56 | 63 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 2766 | 2759 | 2800 | 34 | 41 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 2758 | 2752 | 2769 | 11 | 18 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 2744 | 2737 | 2734 | 10 | 3 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 2720 | 2713 | 2712 | 8 | 1 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 2700 | 2693 | 2692 | 8 | 1 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 2681 | 2674 | 2676 | 4 | 2 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 2668 | 2661 | 2669 | 1 | 8 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 2656 | 2649 | 2663 | 8 | 14 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 2639 | 2632 | 2624 | 15 | 8 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 2616 | 2609 | 2591 | 25 | 19 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 2587 | 2581 | 2562 | 26 | 19 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 2556 | 2549 | 2517 | 39 | 33 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 2516 | 2510 | 2467 | 49 | 43 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 2469 | 2463 | 2405 | 64 | 58 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 2414 | 2408 | 2337 | 77 | 71 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 2353 | 2347 | 2262 | 91 | 85 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 2291 | 2285 | 2198 | 92 | 87 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 2226 | 2220 | 2140 | 86 | 80 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 2160 | 2155 | 2066 | 94 | 89 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 2091 | 2085 | 2002 | 89 | 84 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 2022 | 1940 | 1934 | 88 | 5 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1958 | 1878 | 1865 | 92 | 13 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1898 | 1821 | 1811 | 87 | 10 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1842 | 1768 | 1754 | 89 | 14 |
|----|---------------|------|------|------|----|----|

अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Arunachal Pradesh

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 122 | 127 | 120 | 3 | 7 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 122 | 126 | 123 | 2 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 121 | 125 | 124 | 3 | 1 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 119 | 123 | 119 | 0 | 4 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 117 | 121 | 121 | 4 | 0 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 116 | 120 | 122 | 6 | 2 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 115 | 119 | 118 | 3 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 114 | 118 | 116 | 2 | 2 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 113 | 117 | 114 | 0 | 4 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 113 | 117 | 114 | 1 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 114 | 118 | 119 | 5 | 1 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 114 | 118 | 118 | 4 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 113 | 117 | 117 | 4 | 0 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 112 | 115 | 115 | 3 | 0 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 112 | 115 | 113 | 2 | 2 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 112 | 116 | 116 | 4 | 0 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 114 | 118 | 116 | 3 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 114 | 118 | 117 | 3 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 115 | 119 | 121 | 5 | 2 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 117 | 121 | 122 | 6 | 2 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 119 | 122 | 127 | 8 | 4 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 121 | 125 | 129 | 8 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 123 | 127 | 129 | 6 | 2 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 126 | 130 | 137 | 11 | 7 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 130 | 134 | 145 | 15 | 11 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 135 | 139 | 147 | 13 | 8 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 141 | 145 | 154 | 14 | 9 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 147 | 152 | 159 | 13 | 8 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 152 | 157 | 164 | 13 | 8 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 155 | 160 | 168 | 13 | 8 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 158 | 163 | 168 | 10 | 5 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 159 | 165 | 168 | 9 | 4 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 160 | 166 | 165 | 5 | 1 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 159 | 165 | 167 | 8 | 3 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 157 | 162 | 163 | 6 | 0 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 154 | 159 | 158 | 4 | 1 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 151 | 156 | 158 | 7 | 2 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 148 | 153 | 157 | 9 | 4 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 144 | 149 | 152 | 7 | 3 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 141 | 145 | 152 | 11 | 7 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 138 | 143 | 148 | 10 | 5 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 136 | 141 | 144 | 7 | 3 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 137 | 141 | 139 | 2 | 2 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 137 | 142 | 133 | 4 | 8 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 138 | 143 | 137 | 1 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 138 | 143 | 142 | 4 | 0 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 138 | 143 | 142 | 4 | 1 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 138 | 143 | 139 | 1 | 4 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 139 | 144 | 140 | 1 | 4 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 139 | 144 | 145 | 6 | 1 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 138 | 143 | 144 | 6 | 1 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 137 | 142 | 144 | 7 | 2 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 138 | 142 | 145 | 7 | 3 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 139 | 143 | 143 | 5 | 0 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 139 | 144 | 144 | 5 | 0 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 139 | 144 | 144 | 4 | 0 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 139 | 143 | 145 | 6 | 1 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 138 | 143 | 141 | 3 | 1 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 138 | 142 | 142 | 5 | 0 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 138 | 142 | 141 | 3 | 1 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 138 | 143 | 143 | 4 | 0 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 139 | 144 | 146 | 6 | 2 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 141 | 146 | 147 | 6 | 1 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 143 | 148 | 148 | 5 | 0 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 146 | 151 | 154 | 8 | 3 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 149 | 154 | 155 | 7 | 1 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 151 | 157 | 160 | 9 | 3 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 155 | 160 | 167 | 12 | 7 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 159 | 164 | 169 | 10 | 4 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 165 | 171 | 170 | 5 | 0 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 172 | 177 | 182 | 11 | 5 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 176 | 182 | 183 | 7 | 1 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 179 | 185 | 183 | 4 | 2 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 180 | 186 | 181 | 1 | 5 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 180 | 186 | 185 | 5 | 1 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 180 | 186 | 186 | 6 | 1 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 180 | 186 | 180 | 1 | 5 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 179 | 185 | 183 | 4 | 2 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 179 | 185 | 181 | 2 | 4 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 178 | 184 | 179 | 1 | 5 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 176 | 182 | 174 | 3 | 9 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 174 | 180 | 165 | 9 | 15 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 172 | 178 | 162 | 11 | 16 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 171 | 177 | 165 | 6 | 12 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 169 | 171 | 160 | 9 | 12 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 165 | 168 | 159 | 6 | 9 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 161 | 164 | 154 | 7 | 10 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 157 | 159 | 148 | 9 | 12 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 153 | 151 | 141 | 12 | 10 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 148 | 147 | 139 | 9 | 7 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 143 | 142 | 135 | 8 | 7 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 139 | 138 | 131 | 8 | 7 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 135 | 131 | 130 | 5 | 2 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 131 | 127 | 125 | 5 | 2 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 126 | 123 | 124 | 3 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 124 | 121 | 121 | 3 | 0 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|

**असम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Assam**

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1026 | 965 | 971 | 54 | 6 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1004 | 944 | 959 | 45 | 14 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1003 | 944 | 948 | 54 | 5 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 982 | 925 | 931 | 52 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 963 | 906 | 905 | 58 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 949 | 893 | 890 | 58 | 3 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 934 | 879 | 869 | 65 | 10 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 923 | 869 | 862 | 61 | 7 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 912 | 858 | 852 | 60 | 6 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 904 | 850 | 842 | 62 | 8 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 897 | 844 | 850 | 68 | 15 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 890 | 838 | 825 | 65 | 12 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 883 | 831 | 818 | 65 | 13 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 876 | 825 | 811 | 65 | 13 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 875 | 823 | 808 | 66 | 15 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 875 | 823 | 813 | 61 | 10 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 875 | 823 | 804 | 71 | 20 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 876 | 824 | 810 | 65 | 14 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 877 | 826 | 819 | 59 | 7 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 883 | 831 | 833 | 49 | 3 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 891 | 839 | 862 | 29 | 23 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 907 | 854 | 889 | 18 | 35 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 929 | 874 | 910 | 19 | 36 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 957 | 901 | 963 | 5 | 62 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 995 | 937 | 1027 | 31 | 90 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1048 | 986 | 1137 | 89 | 151 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1110 | 1045 | 1202 | 92 | 158 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 1172 | 1103 | 1234 | 62 | 131 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 1223 | 1259 | 1283 | 59 | 24 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 1264 | 1301 | 1309 | 45 | 8 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 1290 | 1328 | 1315 | 25 | 12 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 1300 | 1338 | 1305 | 5 | 33 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 1299 | 1270 | 1295 | 4 | 25 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 1289 | 1261 | 1275 | 15 | 13 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 1280 | 1253 | 1265 | 16 | 12 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 1266 | 1239 | 1281 | 14 | 42 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 1253 | 1226 | 1247 | 6 | 21 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 1241 | 1214 | 1268 | 27 | 54 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 1235 | 1208 | 1261 | 27 | 53 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 1229 | 1202 | 1247 | 18 | 45 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 1224 | 1234 | 1244 | 20 | 10 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 1221 | 1231 | 1226 | 5 | 5 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1218 | 1228 | 1228 | 10 | 1 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1214 | 1224 | 1201 | 13 | 22 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1212 | 1222 | 1186 | 26 | 35 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1212 | 1222 | 1183 | 29 | 39 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1214 | 1223 | 1167 | 46 | 56 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1209 | 1218 | 1162 | 47 | 56 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 1201 | 1211 | 1159 | 42 | 51 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1191 | 1200 | 1159 | 32 | 42 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1183 | 1192 | 1155 | 29 | 38 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1181 | 1191 | 1155 | 27 | 36 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1179 | 1141 | 1136 | 42 | 4 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1174 | 1136 | 1124 | 50 | 12 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1162 | 1125 | 1126 | 37 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1149 | 1111 | 1105 | 43 | 6 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1136 | 1099 | 1104 | 32 | 5 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1127 | 1090 | 1100 | 27 | 10 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1124 | 1087 | 1115 | 9 | 27 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1123 | 1086 | 1120 | 3 | 33 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 1122 | 1085 | 1116 | 6 | 30 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 1123 | 1086 | 1116 | 7 | 30 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 1128 | 1091 | 1138 | 10 | 47 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 1138 | 1101 | 1155 | 18 | 55 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 1154 | 1153 | 1174 | 20 | 21 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 1179 | 1178 | 1170 | 9 | 8 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 1213 | 1212 | 1208 | 5 | 4 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 1257 | 1256 | 1242 | 15 | 14 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 1312 | 1311 | 1301 | 10 | 9 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 1377 | 1376 | 1391 | 14 | 15 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 1442 | 1441 | 1464 | 21 | 23 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 1480 | 1479 | 1549 | 69 | 70 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 1495 | 1494 | 1552 | 57 | 58 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 1488 | 1487 | 1535 | 47 | 48 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 1484 | 1483 | 1519 | 35 | 36 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 1473 | 1471 | 1503 | 30 | 32 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 1462 | 1461 | 1493 | 31 | 32 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 1455 | 1454 | 1482 | 27 | 29 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 1454 | 1453 | 1472 | 18 | 19 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 1454 | 1452 | 1467 | 13 | 14 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 1449 | 1448 | 1454 | 5 | 6 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 1439 | 1438 | 1447 | 8 | 9 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 1424 | 1423 | 1426 | 1 | 2 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 1408 | 1407 | 1400 | 8 | 7 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 1389 | 1388 | 1377 | 12 | 11 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 1366 | 1365 | 1341 | 25 | 24 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 1341 | 1339 | 1309 | 31 | 30 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 1312 | 1311 | 1273 | 38 | 37 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 1285 | 1284 | 1255 | 30 | 29 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1257 | 1256 | 1232 | 25 | 24 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1228 | 1227 | 1199 | 29 | 28 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1194 | 1193 | 1168 | 26 | 25 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1159 | 1158 | 1135 | 24 | 23 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1123 | 1122 | 1101 | 23 | 22 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1090 | 1089 | 1066 | 23 | 22 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1056 | 1055 | 1027 | 29 | 28 |
|----|---------------|------|------|------|----|----|

**माणिपुर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Manipur**

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 99 | 95 | 92 | 6 | 3 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 96 | 93 | 90 | 6 | 3 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 96 | 93 | 89 | 7 | 4 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 93 | 90 | 89 | 5 | 2 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 91 | 89 | 88 | 3 | 0 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 90 | 87 | 87 | 3 | 0 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 89 | 86 | 86 | 2 | 0 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 88 | 85 | 85 | 3 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 88 | 85 | 84 | 4 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 87 | 85 | 84 | 3 | 0 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 87 | 85 | 85 | 2 | 1 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 87 | 84 | 85 | 2 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 87 | 84 | 86 | 1 | 1 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 87 | 84 | 86 | 1 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 88 | 85 | 86 | 2 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 88 | 85 | 86 | 3 | 0 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 89 | 86 | 90 | 0 | 3 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 91 | 88 | 95 | 4 | 7 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 94 | 91 | 100 | 6 | 9 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 100 | 96 | 105 | 5 | 8 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 106 | 103 | 115 | 9 | 13 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 115 | 112 | 129 | 14 | 17 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 126 | 122 | 148 | 22 | 27 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 133 | 135 | 174 | 41 | 38 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 149 | 151 | 176 | 27 | 25 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 163 | 164 | 177 | 14 | 12 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 173 | 174 | 170 | 3 | 4 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 180 | 181 | 163 | 17 | 18 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 185 | 179 | 134 | 51 | 45 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 188 | 182 | 140 | 48 | 42 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 188 | 181 | 140 | 48 | 42 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 186 | 179 | 152 | 34 | 28 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 180 | 164 | 164 | 16 | 1 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 173 | 157 | 164 | 9 | 7 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 167 | 152 | 171 | 4 | 19 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 165 | 151 | 169 | 3 | 18 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 166 | 157 | 166 | 0 | 9 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 166 | 157 | 162 | 4 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 164 | 155 | 159 | 5 | 4 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 161 | 153 | 158 | 4 | 5 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 158 | 152 | 159 | 1 | 7 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 155 | 149 | 148 | 7 | 2 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 151 | 146 | 142 | 9 | 3 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 147 | 142 | 139 | 8 | 3 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 144 | 139 | 131 | 13 | 8 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 140 | 136 | 127 | 13 | 9 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 137 | 133 | 123 | 14 | 10 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 134 | 130 | 120 | 14 | 10 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 130 | 124 | 112 | 18 | 12 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 125 | 120 | 109 | 16 | 10 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 122 | 117 | 109 | 13 | 8 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 120 | 115 | 110 | 11 | 6 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 122 | 114 | 109 | 13 | 5 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 123 | 115 | 109 | 14 | 6 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 124 | 115 | 107 | 17 | 9 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 124 | 116 | 104 | 20 | 12 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 124 | 114 | 106 | 18 | 8 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 125 | 114 | 110 | 15 | 4 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 125 | 115 | 113 | 13 | 2 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 127 | 116 | 119 | 8 | 3 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 131 | 121 | 122 | 9 | 0 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 134 | 124 | 125 | 10 | 0 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 138 | 128 | 130 | 8 | 2 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 141 | 131 | 133 | 8 | 1 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 147 | 135 | 135 | 12 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 155 | 143 | 147 | 8 | 4 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 165 | 151 | 156 | 8 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 175 | 160 | 165 | 10 | 4 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 186 | 170 | 176 | 9 | 6 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 195 | 178 | 189 | 6 | 11 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 201 | 183 | 180 | 21 | 4 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 205 | 187 | 173 | 31 | 13 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 206 | 188 | 187 | 19 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 205 | 187 | 175 | 30 | 12 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 201 | 184 | 171 | 31 | 13 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 198 | 181 | 167 | 31 | 14 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 197 | 177 | 167 | 30 | 10 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 195 | 175 | 168 | 28 | 8 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 194 | 174 | 182 | 12 | 8 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 191 | 171 | 185 | 6 | 14 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 187 | 171 | 182 | 5 | 11 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 183 | 168 | 179 | 4 | 11 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 179 | 165 | 182 | 3 | 18 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 176 | 162 | 174 | 2 | 13 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 171 | 160 | 164 | 6 | 4 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 164 | 154 | 159 | 5 | 4 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 156 | 147 | 151 | 5 | 4 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 148 | 139 | 141 | 7 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 138 | 130 | 133 | 5 | 2 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 129 | 122 | 123 | 6 | 0 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 120 | 115 | 113 | 7 | 1 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 113 | 108 | 109 | 4 | 0 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 106 | 102 | 103 | 3 | 1 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 101 | 98 | 93 | 8 | 4 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 97 | 94 | 93 | 4 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 94 | 91 | 91 | 3 | 0 |

**मेघालय के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Meghalaya**

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 213 | 203 | 182 | 31 | 21 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 207 | 198 | 174 | 33 | 23 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 207 | 198 | 170 | 37 | 28 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 202 | 193 | 168 | 34 | 25 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 198 | 181 | 166 | 32 | 15 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 194 | 178 | 163 | 32 | 15 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 191 | 175 | 162 | 29 | 13 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 189 | 173 | 160 | 29 | 13 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 187 | 165 | 156 | 31 | 9 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 186 | 164 | 156 | 30 | 8 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 185 | 163 | 157 | 28 | 7 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 184 | 163 | 158 | 26 | 5 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 184 | 160 | 156 | 28 | 4 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 184 | 160 | 156 | 28 | 4 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 184 | 160 | 157 | 28 | 3 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 184 | 160 | 160 | 24 | 0 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 183 | 159 | 157 | 26 | 2 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 183 | 159 | 158 | 25 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 182 | 158 | 155 | 27 | 3 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 183 | 159 | 160 | 22 | 2 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 184 | 160 | 165 | 19 | 5 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 187 | 163 | 169 | 18 | 7 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 192 | 167 | 180 | 11 | 14 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 198 | 172 | 191 | 7 | 19 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 206 | 179 | 207 | 1 | 28 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 218 | 189 | 234 | 17 | 45 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 233 | 202 | 255 | 23 | 53 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 249 | 216 | 268 | 19 | 52 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 263 | 239 | 275 | 13 | 37 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 272 | 247 | 276 | 4 | 29 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 279 | 254 | 279 | 0 | 26 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 283 | 257 | 274 | 9 | 17 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 283 | 267 | 267 | 15 | 0 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 281 | 265 | 259 | 22 | 6 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 278 | 262 | 256 | 22 | 6 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 277 | 261 | 252 | 24 | 9 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 274 | 258 | 243 | 30 | 15 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 270 | 255 | 240 | 30 | 15 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 266 | 251 | 231 | 34 | 19 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 262 | 247 | 232 | 30 | 15 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 258 | 240 | 230 | 28 | 10 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 255 | 236 | 224 | 31 | 13 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 251 | 233 | 224 | 27 | 9 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 248 | 230 | 223 | 25 | 8 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 245 | 224 | 224 | 22 | 0 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 243 | 222 | 221 | 22 | 1 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 241 | 220 | 223 | 18 | 3 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 239 | 218 | 217 | 22 | 1 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 237 | 217 | 215 | 22 | 2 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 235 | 215 | 221 | 14 | 6 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 234 | 214 | 217 | 17 | 3 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 233 | 213 | 214 | 19 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 233 | 213 | 213 | 20 | 0 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 233 | 213 | 213 | 20 | 0 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 233 | 213 | 216 | 18 | 3 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 233 | 213 | 219 | 15 | 6 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 233 | 212 | 215 | 17 | 3 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 233 | 212 | 222 | 11 | 10 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 233 | 213 | 229 | 4 | 16 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 235 | 215 | 231 | 5 | 16 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 239 | 218 | 241 | 2 | 23 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 243 | 222 | 242 | 1 | 20 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 247 | 226 | 244 | 3 | 19 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 251 | 230 | 247 | 4 | 18 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 256 | 239 | 257 | 1 | 17 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 261 | 244 | 255 | 7 | 10 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 269 | 251 | 258 | 11 | 7 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 277 | 259 | 274 | 3 | 15 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 285 | 271 | 277 | 8 | 6 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 294 | 279 | 288 | 6 | 9 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 304 | 289 | 306 | 2 | 17 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 314 | 298 | 315 | 1 | 17 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 320 | 304 | 321 | 1 | 17 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 323 | 307 | 325 | 2 | 18 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 322 | 306 | 316 | 6 | 10 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 321 | 305 | 316 | 6 | 10 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 320 | 304 | 315 | 5 | 11 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 319 | 303 | 313 | 5 | 11 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 315 | 299 | 311 | 4 | 11 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 311 | 296 | 307 | 5 | 11 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 309 | 293 | 301 | 7 | 8 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 308 | 293 | 297 | 12 | 4 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 307 | 292 | 290 | 17 | 2 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 304 | 289 | 288 | 16 | 1 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 299 | 284 | 283 | 16 | 2 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 294 | 279 | 278 | 15 | 1 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 288 | 274 | 274 | 15 | 0 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 283 | 269 | 266 | 16 | 2 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 277 | 263 | 257 | 20 | 6 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 271 | 258 | 247 | 24 | 10 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 265 | 251 | 240 | 24 | 11 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 257 | 244 | 230 | 27 | 14 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 248 | 236 | 216 | 32 | 20 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 239 | 228 | 210 | 29 | 17 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|----|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 230 | 219 | 205 | 25 | 14 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 222 | 211 | 198 | 24 | 13 |

मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Mizoram

दिनांक /Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 62 | 50 | 47 | 14 | 3 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 59 | 48 | 46 | 13 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 59 | 48 | 44 | 15 | 4 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 56 | 46 | 42 | 14 | 4 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 54 | 43 | 41 | 13 | 2 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 52 | 42 | 41 | 11 | 1 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 50 | 41 | 40 | 10 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 49 | 39 | 39 | 10 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 47 | 38 | 39 | 8 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 46 | 38 | 39 | 7 | 1 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 45 | 37 | 38 | 7 | 1 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 44 | 36 | 37 | 7 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 43 | 35 | 37 | 6 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 43 | 35 | 37 | 6 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 43 | 35 | 37 | 5 | 2 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 42 | 35 | 37 | 5 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 41 | 35 | 38 | 4 | 3 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 41 | 34 | 38 | 3 | 4 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 41 | 35 | 39 | 2 | 5 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 42 | 35 | 40 | 2 | 4 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 43 | 37 | 41 | 3 | 4 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 45 | 38 | 42 | 2 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 47 | 40 | 45 | 2 | 5 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 50 | 43 | 50 | 0 | 7 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 56 | 47 | 58 | 2 | 11 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 63 | 52 | 65 | 2 | 13 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 71 | 59 | 74 | 3 | 15 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 79 | 64 | 79 | 0 | 14 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 86 | 74 | 84 | 2 | 10 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 92 | 79 | 90 | 3 | 11 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 97 | 83 | 92 | 5 | 10 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 101 | 86 | 93 | 8 | 7 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 103 | 91 | 91 | 12 | 0 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 105 | 92 | 90 | 14 | 2 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 105 | 92 | 88 | 17 | 4 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 103 | 91 | 85 | 18 | 6 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 101 | 88 | 85 | 16 | 3 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 98 | 85 | 84 | 14 | 2 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 95 | 83 | 82 | 13 | 0 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 92 | 80 | 82 | 10 | 2 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 90 | 78 | 83 | 6 | 5 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 88 | 77 | 83 | 5 | 6 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 86 | 75 | 80 | 6 | 5 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 84 | 74 | 79 | 5 | 5 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 82 | 72 | 79 | 3 | 7 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 82 | 72 | 78 | 4 | 6 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 82 | 72 | 79 | 3 | 7 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 81 | 71 | 79 | 2 | 8 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 85 | 72 | 80 | 4 | 9 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 84 | 71 | 81 | 3 | 10 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 84 | 71 | 83 | 1 | 12 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 84 | 71 | 85 | 1 | 14 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 84 | 74 | 85 | 1 | 11 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 85 | 75 | 84 | 1 | 9 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 86 | 76 | 77 | 9 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 87 | 77 | 64 | 23 | 13 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 89 | 75 | 73 | 16 | 2 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 91 | 77 | 88 | 3 | 12 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 93 | 79 | 94 | 1 | 15 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 97 | 82 | 96 | 0 | 15 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 101 | 88 | 103 | 2 | 15 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 106 | 92 | 111 | 6 | 19 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 111 | 97 | 118 | 8 | 22 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 115 | 101 | 121 | 6 | 20 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 120 | 110 | 124 | 4 | 14 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 124 | 113 | 129 | 5 | 16 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 128 | 117 | 131 | 3 | 14 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 131 | 120 | 136 | 6 | 16 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 135 | 128 | 139 | 4 | 10 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 138 | 131 | 140 | 2 | 9 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 141 | 134 | 144 | 4 | 10 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 142 | 135 | 145 | 4 | 10 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 141 | 138 | 146 | 5 | 8 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 139 | 136 | 145 | 6 | 9 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 137 | 134 | 139 | 2 | 5 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 135 | 132 | 141 | 6 | 9 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 133 | 132 | 142 | 9 | 9 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 131 | 131 | 139 | 8 | 9 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 130 | 129 | 136 | 6 | 7 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 128 | 128 | 137 | 9 | 9 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 127 | 129 | 130 | 3 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 125 | 127 | 129 | 4 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 123 | 125 | 128 | 5 | 3 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 121 | 122 | 123 | 2 | 1 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 118 | 120 | 121 | 3 | 1 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 115 | 117 | 117 | 2 | 0 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 112 | 113 | 110 | 2 | 3 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 107 | 108 | 105 | 3 | 4 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 102 | 103 | 99 | 3 | 4 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 96 | 97 | 93 | 3 | 4 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 91 | 92 | 87 | 4 | 5 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 85 | 86 | 81 | 4 | 5 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 80 | 81 | 76 | 4 | 5 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 94 | 23:15 - 23:30 | 75 | 76 | 70 | 5 | 6 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 71 | 72 | 66 | 5 | 6 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 67 | 68 | 63 | 4 | 5 |

नागालैंड के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Nagaland

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 76 | 69 | 68 | 8 | 1 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 74 | 67 | 67 | 7 | 0 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 74 | 67 | 67 | 8 | 1 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 72 | 65 | 66 | 6 | 1 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 71 | 64 | 65 | 5 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 69 | 63 | 65 | 4 | 2 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 68 | 62 | 65 | 3 | 3 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 67 | 61 | 65 | 3 | 4 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 67 | 61 | 64 | 3 | 4 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 67 | 60 | 64 | 3 | 4 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 66 | 60 | 64 | 3 | 4 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 66 | 60 | 64 | 2 | 4 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 67 | 61 | 64 | 3 | 3 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 67 | 62 | 65 | 2 | 3 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 68 | 62 | 65 | 3 | 3 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 68 | 63 | 66 | 3 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 69 | 64 | 68 | 2 | 4 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 71 | 65 | 71 | 0 | 5 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 73 | 67 | 74 | 1 | 7 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 76 | 70 | 79 | 3 | 9 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 80 | 75 | 84 | 4 | 9 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 85 | 80 | 93 | 8 | 13 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 92 | 87 | 105 | 13 | 18 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 101 | 95 | 110 | 9 | 15 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 111 | 104 | 105 | 6 | 1 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 119 | 112 | 109 | 11 | 4 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 125 | 117 | 116 | 9 | 2 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 126 | 119 | 123 | 4 | 4 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 127 | 122 | 120 | 7 | 2 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 128 | 123 | 113 | 16 | 10 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 128 | 123 | 107 | 21 | 16 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 126 | 121 | 100 | 26 | 21 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 122 | 114 | 103 | 19 | 11 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 120 | 112 | 116 | 4 | 4 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 119 | 111 | 108 | 10 | 3 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 119 | 111 | 106 | 13 | 5 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 116 | 106 | 125 | 9 | 20 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 113 | 103 | 126 | 13 | 23 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 109 | 99 | 118 | 9 | 19 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 106 | 97 | 109 | 3 | 13 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 104 | 98 | 115 | 11 | 17 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 102 | 95 | 112 | 10 | 16 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 101 | 94 | 106 | 5 | 11 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 99 | 93 | 103 | 4 | 10 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 98 | 96 | 101 | 3 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 97 | 94 | 108 | 11 | 14 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 96 | 94 | 111 | 15 | 17 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 96 | 94 | 108 | 12 | 14 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 96 | 96 | 102 | 7 | 6 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 95 | 96 | 99 | 4 | 3 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 94 | 95 | 101 | 7 | 6 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 94 | 95 | 105 | 11 | 10 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 95 | 99 | 108 | 13 | 10 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 97 | 101 | 108 | 11 | 7 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 100 | 104 | 109 | 9 | 5 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 103 | 107 | 111 | 8 | 4 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 106 | 112 | 112 | 5 | 0 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 109 | 115 | 117 | 8 | 2 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 112 | 118 | 122 | 10 | 4 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 114 | 120 | 123 | 9 | 2 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 117 | 123 | 124 | 7 | 1 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 121 | 128 | 130 | 10 | 3 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 125 | 132 | 130 | 5 | 2 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 128 | 135 | 128 | 0 | 7 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 130 | 138 | 134 | 4 | 4 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 132 | 139 | 137 | 5 | 2 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 134 | 141 | 136 | 2 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 137 | 144 | 139 | 2 | 5 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 141 | 149 | 144 | 3 | 5 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 144 | 152 | 148 | 4 | 4 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 147 | 155 | 156 | 9 | 1 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 148 | 156 | 145 | 3 | 11 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 148 | 156 | 136 | 12 | 20 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 146 | 154 | 133 | 13 | 22 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 143 | 151 | 134 | 10 | 18 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 139 | 147 | 129 | 10 | 18 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 135 | 137 | 125 | 10 | 13 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 130 | 132 | 126 | 4 | 7 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 126 | 128 | 125 | 1 | 3 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 123 | 126 | 127 | 4 | 1 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 120 | 125 | 122 | 3 | 3 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 117 | 122 | 116 | 1 | 6 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 113 | 118 | 115 | 2 | 3 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 111 | 116 | 114 | 2 | 3 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 109 | 114 | 112 | 3 | 2 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 108 | 113 | 105 | 4 | 9 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 106 | 111 | 101 | 5 | 10 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 103 | 107 | 95 | 8 | 12 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 99 | 101 | 90 | 9 | 12 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 95 | 97 | 86 | 9 | 12 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 91 | 93 | 81 | 10 | 12 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 87 | 89 | 78 | 9 | 11 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 83 | 82 | 75 | 9 | 7 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 80 | 79 | 72 | 8 | 7 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 78 | 77 | 70 | 8 | 7 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 76 | 75 | 69 | 7 | 6 |

त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Tripura

दिनांक/Date: 2/10/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 191 | 191 | 185 | 6 | 6 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 189 | 189 | 181 | 8 | 8 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 188 | 188 | 175 | 13 | 13 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 185 | 185 | 170 | 15 | 15 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 181 | 178 | 167 | 14 | 11 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 178 | 175 | 163 | 15 | 12 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 175 | 172 | 163 | 12 | 9 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 172 | 169 | 159 | 13 | 10 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 170 | 164 | 159 | 11 | 4 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 169 | 162 | 159 | 10 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 168 | 162 | 155 | 13 | 6 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 167 | 161 | 158 | 9 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 167 | 161 | 162 | 5 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 166 | 160 | 160 | 6 | 0 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 166 | 160 | 161 | 6 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 166 | 160 | 154 | 12 | 5 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 166 | 160 | 157 | 9 | 3 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 166 | 160 | 158 | 8 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 166 | 160 | 158 | 8 | 2 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 167 | 160 | 158 | 8 | 2 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 167 | 161 | 161 | 6 | 0 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 168 | 162 | 162 | 6 | 0 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 170 | 163 | 165 | 5 | 2 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 171 | 165 | 166 | 6 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 173 | 167 | 172 | 2 | 5 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 178 | 171 | 184 | 6 | 13 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 184 | 177 | 197 | 12 | 19 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 192 | 185 | 210 | 17 | 25 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 201 | 197 | 223 | 22 | 26 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 211 | 206 | 238 | 27 | 32 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 220 | 216 | 250 | 30 | 35 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 229 | 224 | 259 | 30 | 35 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 234 | 238 | 262 | 27 | 24 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 238 | 241 | 264 | 26 | 23 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 240 | 243 | 263 | 23 | 19 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 241 | 244 | 257 | 17 | 13 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 241 | 251 | 253 | 12 | 2 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 239 | 249 | 252 | 13 | 3 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 234 | 245 | 247 | 13 | 2 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 230 | 240 | 246 | 16 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 224 | 233 | 242 | 18 | 8 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 220 | 229 | 233 | 13 | 4 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 216 | 225 | 224 | 8 | 1 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 214 | 223 | 218 | 4 | 6 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 213 | 222 | 216 | 3 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 213 | 222 | 222 | 9 | 0 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 214 | 224 | 223 | 9 | 0 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 216 | 225 | 223 | 7 | 2 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 218 | 228 | 224 | 5 | 4 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 220 | 230 | 222 | 2 | 8 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 222 | 232 | 222 | 0 | 10 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 223 | 233 | 219 | 4 | 14 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 224 | 233 | 217 | 6 | 16 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 223 | 233 | 212 | 11 | 21 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 222 | 232 | 215 | 7 | 16 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 220 | 230 | 216 | 4 | 14 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 218 | 223 | 216 | 2 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 215 | 219 | 217 | 2 | 2 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 211 | 216 | 211 | 0 | 5 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 209 | 213 | 208 | 1 | 5 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 206 | 211 | 206 | 0 | 5 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 205 | 209 | 199 | 6 | 10 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 201 | 206 | 203 | 1 | 3 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 199 | 204 | 206 | 6 | 2 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 199 | 203 | 208 | 9 | 5 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 202 | 206 | 205 | 4 | 1 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 207 | 211 | 213 | 6 | 1 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 213 | 218 | 219 | 6 | 1 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 222 | 226 | 230 | 9 | 4 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 233 | 238 | 247 | 14 | 9 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 248 | 253 | 270 | 22 | 17 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 261 | 267 | 278 | 17 | 11 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 269 | 275 | 274 | 5 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 270 | 276 | 275 | 5 | 1 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 269 | 274 | 270 | 2 | 4 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 267 | 272 | 271 | 4 | 1 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 266 | 272 | 270 | 4 | 2 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 265 | 270 | 265 | 0 | 6 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 264 | 270 | 263 | 1 | 7 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 264 | 269 | 262 | 2 | 8 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 263 | 269 | 260 | 3 | 9 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 263 | 268 | 258 | 4 | 10 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 261 | 266 | 259 | 1 | 7 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 258 | 263 | 252 | 5 | 11 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 254 | 259 | 250 | 4 | 9 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 249 | 254 | 246 | 3 | 8 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 243 | 248 | 238 | 5 | 10 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 237 | 242 | 235 | 2 | 7 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 230 | 235 | 224 | 7 | 12 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 223 | 228 | 220 | 3 | 8 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 215 | 220 | 211 | 5 | 9 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 208 | 213 | 206 | 3 | 7 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 204 | 208 | 200 | 3 | 8 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 200 | 205 | 193 | 7 | 11 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 198 | 203 | 186 | 12 | 16 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 197 | 201 | 186 | 11 | 15 |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|----|